

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
जनपद—

पत्रांक संख्या—

दिनांक— 15/05/2023

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम— डा. शशि राना
02. पिता/पति का नाम— डा. लक्ष्मण सिंह राणा
03. पदनाम— प्रभारी चिकित्साधिकारी
04. नियुक्ति का प्रकार— एक सेवा भ्रमण
05. वर्तमान तैनाती का स्थान— रा. आयु. चिकि. चुरीगाड, नैनीताल
06. वर्तमान तैनाती की तिथि— 31/12/2023
07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण—

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	रा. आयु. चिकि.	30/10/2023	30/12/23	दुर्गम
2.	धर्मपुर अल्मोड़ा			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं— (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☐ सुगम से दुर्गम
 ☐ अनुरोध
 ☐ दुर्गम से सुगम
 ☐ स्थानान्तरण से छूट
 ☒ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) —

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
 ☐ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
 ☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
 ☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 ☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

Shashi Rana

प्रभारी चिकित्साधिकारी
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय
चुरीगाड जिला नैनीताल

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) --

- ☐ गंभीर रोग ग्रस्त/विकलांग
 ☐ मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता
 ☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 ☐ उत्तराखण्ड सरकार में कार्यरत पति-पत्नी
 ☐ विधुर/विधवा/तलाकशुदा/वरिष्ठ कार्मिक
- ☐ दुर्गम से दुर्गम
 ☐ सुगम से दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या-


(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाईट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-


 डा० अशिश राणा
 प्रभारी चिकित्साधिकारी
 चुरीगाड नैनीताल

प्रभारा चिकित्साधिकारी
 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय
 चुरीगाड जिला नैनीताल